

जनगणना 2021 आपके सवालों के जवाब



जनगणना आ गई है

यह उन चीजों के बारे में निर्णय लेने में मदद करती है जो आपके समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इस लीफलेट में आपको **जनगणना 2021** के बारे में आम तौर पर पूछे गए सवालों के जवाब मिलेंगे।

अपनी जनगणना प्रश्नावली को पूरा करना जरूरी है क्योंकि यह हमें हमारे समाज के बारे में सर्वाधिक सविस्तार जानकारी प्रदान करती है। कानूनी तौर पर आपको अवश्य ही जनगणना को पूरा करना होगा।

जनगणना से प्राप्त डेटा की मदद से आपके क्षेत्र में सार्वजनिक सेवाओं के वित्त पोषण के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। चाहे बात नए स्कूल, डॉक्टर की सर्जरी या बाइक लेन की योजना बनाने की हो, आपके द्वारा साझा की गई जानकारी से इंग्लैंड और वेल्स में रहने वाले सभी लोगों के जीवन प्रभावित होते हैं।

मुझे अपनी जनगणना प्रश्नावली कब पूरी करनी चाहिए?

जनगणना दिवस रविवार 21 मार्च को है - लेकिन डाक से अपना ऐक्सेस कोड मिलने पर आप अपनी प्रश्नावली को पूरा कर सकते हैं।

आपके जवाब उन लोगों के बारे में होने चाहिए जो इस तारीख पर आम तौर पर आपके परिवार में रहते हैं - भले ही आप इसे उस समय से पहले भर रहे हों।

अगर जनगणना दिवस पर आपकी पारिवारिक परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, तो आप हमें उसके बारे में सूचित कर सकते हैं।

अगर आपको सहायता की जरूरत है,
तो www.census.gov.uk देखें



@Census2021

जनगणना क्या है?

जनगणना एक सर्वेक्षण है जो हर 10 सालों में होता है और जो हमें इंग्लैंड और वेल्स में रहने वाले सभी लोगों और परिवारों की छवि प्रदान करता है। सभी प्रकार के संस्थान, स्थानीय अधिकारियों से लेकर चैरिटियाँ, इस जानकारी के उपयोग की सहायता से वह सभी सेवाएं प्रदान करती हैं जिनकी हमें जरूरत है, जिसमें पर्यावहन, शिक्षा और स्वास्थ्यसेवा शामिल हैं। जनगणना के बिना, इसे कर पाना कई गुना अधिक कठिन होता।

क्या मेरा हिस्सा लेना अनिवार्य है?

अगर आप इंग्लैंड और वेल्स में रहते हैं, तो आपको अवश्य ही जनगणना को पूरा करना होगा। जनगणना कि मदद से निर्णय लिया जाता है कि अरबों पाउंड के सार्वजनिक धन को कैसे व्यय किया जाएगा। प्रति व्यक्ति के लिए लगने वाले 10 मिनटों का समय लेकर जनगणना की प्रश्रावली को पूरा करके, आप सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि वर्तमान में और भविष्य में आपके समुदाय को उसकी जरूरी सेवाएं मिलती रहें।





क्या मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी का उपयोग करके सरकार मुझे पहचानेगी?

नहीं। इंग्लैंड और वेल्स में जनगणना को The Office for National Statistics (ONS) द्वारा संचालित किया जाता है।

हम जनगणना के बारे में केवल नामरहित जानकारी प्रकाशित करते हैं। बल्कि, निजी जनगणना संबंधी जानकारी को साझा करना एक अपराध है और आपके द्वारा हमें बताई गई कोई भी बात सुरक्षित है।

जनगणना से मुझे क्या फायदा होगा?

जनगणना से सभी का फायदा होता है। यह एक दशक में आने वाला एक मात्र मौका है जब आप अपनी आवाज उठा सकते हैं और अपने स्थानीय क्षेत्र के भविष्य के लिए निर्णय लेने हेतु मदद कर सकते हैं।



तब क्या होगा अगर मुझे खुद का विवरण जनगणना के विकल्पों में ना मिले?

जनगणना आपको आपकी जातीयता, लिंग और लैंगिक रुझान, धर्म एवं राष्ट्रीय पहचान के बारे में सवाल पूछती है। आप प्रत्येक सवाल का जवाब कैसे देना चाहते हैं वह आप पर निर्भर करता है। वही जवाब दें जो आपकी राय में आपका श्रेष्ठ वर्णन करता है।

क्या मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी मेरे बेनेफिट या आप्रवासन स्थिति को प्रभावित कर सकती है?

नहीं। आपके द्वारा जनगणना में प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करके किसी बेनिफिट क्लेम, रेसिडेंसी का आवेदन, आप्रवासन स्थिति या आपके करों को प्रभावित नहीं किया जा सकता है।

ONS सरकार से स्वाधीन है। इसका यह मतलब है कि आपको मिलने वाले भुगतान या सेवाओं के मामलों को संभालने वाले लोग आपकी जनगणना की जानकारी को नहीं देख सकेंगे।



अगर मैं अपनी जनगणना की प्रश्नावली को ऑनलाइन पूरा न कर सकूँ तो क्या होगा?

हम जानते हैं कि कुछ लोगों को यह चुनौतिपूर्ण लगेगा। इसलिए हम विभिन्न प्रकार की सहायता सेवाओं के द्वारा आपकी मदद करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आपकी जरूरतें चाहे जो भी हों, हम आपके लिए उन्हें आसान बनाएंगे।

सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- कई भाषाओं और प्रारूपों में दिशा-निर्देश और सहायता
- फोन, वेब चैट या सोशल मीडिया द्वारा सहायता
- अगर आप चाहें तो प्रश्नावली का कागजी संस्करण
- पहुँच योग्य जनगणना संबंधी दिशा-निर्देश, उदाहरणस्वरूप, ब्रेल में

जनगणना क्यों मुझसे मेरे लिंग और मेरे लैंगिक रुझान के बारे में सवाल पूछ रही है?

पहली बार जनगणना आपसे लैंगिक रुझान और लैंगिक पहचान के बारे में स्वैच्छिक सवाल पूछ रही है। यह इसलिए है ताकि हमें लेस्बियन, गे, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर जनसंख्या के बारे में अधिक सटीक जानकारी मिले।



इसकी मदद से संस्थाएं किन्हीं भी ऐसी असमानताओं को दूर करने के लिए सही कदम उठा सकेंगी जिनका इस समूह के लोगों को सामना करना पड़ता है और साथ ही यह दिखाएगा कि सेवाओं की जरूरत कहाँ है। हम केवल 16 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही यह सवाल पूछेंगे।

अगर अपने बाकी परिवार के साथ एक ही प्रपत्र पर अपनी पहचान प्रदान करने में आप सहज बोध नहीं करते हैं, तो आप एक व्यक्तिगत जनगणना प्रश्नावली का अनुरोध कर सकते हैं और अलग से जवाब दे सकते हैं।

क्या दोस्त और परिवार इस जनगणना को पूरा करने में मदद कर सकते हैं?

हमने प्रश्नावली को यथासंभव सहज बनाया है।

अगर किसी दोस्त, या परिवार के सदस्य, को सहायता की जरूरत है, तो अगर आपसे बन पड़े तो उनकी मदद करें। हमेशा अपनी जनगणना को पहले पूरा करें।

आप खुद के लिए, या किसी और के लिए भी मदद मांग सकते हैं।

जनगणना दिवस रविवार 21 मार्च को है

हिस्सा लेना आसान है। अगर अपने प्रपत्र को भरने के लिए आपको मदद की जरूरत है तो, हम आपको सहायता प्रदान कर सकते हैं।



हम आपको एक ऐक्सेस कोड
सहित चिट्ठी भेजेंगे।



शुरू करने के लिए हमारी सुरक्षित
वेबसाइट पर जाएं और अपना
ऐक्सेस कोड एंटर करें।

अगर आपको, या आपके किसी परिचित व्यक्ति को, मदद की जरूरत हो, तो विभिन्न प्रकार की सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं।

अगर आपको सहायता की जरूरत है, तो
www.census.gov.uk देखें

  
@Census2021